



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 अग्रहायण 1933 (श0)  
(सं0 पटना 733) पटना, शुक्रवार, 2 दिसम्बर 2011

#### बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

24 अक्टूबर 2011

सं0 1217—भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर नगर के ईस्ट गुडहट्टा रोड, सिकन्दरपुर स्थित श्री दिनेश्वर नाथ धाम मंदिर न्यास पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 3963 है।

इस न्यास के व्यवस्थापक श्री भोला शंकर प्रसाद ने पर्षद को दिनांक 24 जनवरी 2009 को सूचित किया था कि मंदिर के संस्थापक एवं सेवायत दिनेश्वर प्रसाद का देहावसान दिनांक 11 जनवरी 2002 को हो गया और उनके बाद वे ही (भोला शंकर प्रसाद) इस मंदिर का प्रबंध कर रहे हैं। उन्होंने पर्षद से अनुरोध किया कि मंदिर के सुचारु प्रबंधन के लिए समुचित कार्यवाई की जाये। तत्पश्चात् इस न्यास का स्थानीय निरीक्षण पर्षद के माननीय सदस्य श्री महंत शिव नारायण गिरी द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2011 को किया गया। उन्होंने न्यास की सुव्यवस्था हेतु न्यास समिति के गठन की अनुशंसा करते हुए स्थानीय नौ प्रतिष्ठित एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों के नामों की एक सूची भी दी है और इसे मान्यता देने का अनुरोध किया है।

अतः मैं, किशोर कुणाल, अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, श्री दिनेश्वर नाथ धाम मंदिर, ईस्ट गुडहट्टा रोड, सिकन्दरपुर, भागलपुर की सुव्यवस्था, संचालन तथा सम्यक् विकास के लिए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 के तहत अग्रलिखित एक योजना का निरूपण करता हूँ :-

#### योजना

1. इस योजना का नाम “श्री दिनेश्वर नाथ धाम मंदिर न्यास योजना” होगा तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति का नाम “श्री दिनेश्वर नाथ धाम मंदिर न्यास समिति” होगा, जिसमें मंदिर की समस्त चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मठ की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक् रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिकवियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जायेगी ।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक कांड में आरोप-पत्रित होंगे तो उनकी अहर्ता समाप्त हो जायेगी ।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल आदेश की तिथि से 05 वर्षों की होगी । लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- |  |                |
|--|----------------|
| (1) अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर   | — पदेन अध्यक्ष |
| (2) श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, अधिवक्ता<br>मोती लाल लेन, सिकन्दरपुर, भागलपुर। | — उपाध्यक्ष    |
| (3) डा० जनार्दन प्रसाद, भिखनपुर, पो०—ईशाचक, भागलपुर                          | — सचिव         |
| (4) श्री अरुण कुमार लाल, अधिवक्ता<br>बी० के० लाल लेन, सिकन्दरपुर, भागलपुर    | — कोषाध्यक्ष   |
| (5) श्री भोला शंकर प्रसाद, वदोसाहलेन, सिकन्दरपुर, भागलपुर                    | — सेवायत सदस्य |
| (6) श्रीमती रुकमिणी देवी, सिकन्दरपुर, बिस्कुट फ़ैक्ट्री गली, भागलपुर         | — सदस्य        |
| (7) श्री विरकेश्वर रविदास, रविदास टोला, सिकन्दरपुर, भागलपुर                  | — सदस्य        |
| (8) श्री ज्योतिष रविदास, रविदास टोला, सिकन्दरपुर, भागलपुर                    | — सदस्य        |
| (9) श्री हिमांशु कुमार, ईस्ट गुडहट्टा रोड, रविदास टोला, भागलपुर              | — सदस्य।       |

आदेश से,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष,  
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 733-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>